



SRI SATHYA SAI COLLEGE FOR WOMEN, BHOPAL

Kasturba Hospital Road, Habibganj, Bhopal - 462024



3.3.1: Institution has created an ecosystem for innovations, Indian Knowledge System (IKS), including awareness about IPR, establishment of IPR cell, Incubation centre and other initiatives for the creation and transfer of knowledge/technology and the outcomes of the same are evident

IPR, IKS and Transfer of Knowledge


Sri Sathya Sai College for Women, Bhopal

In the dynamic landscape of education our institute has cultivated a vibrant ecosystem for innovation that seamlessly integrates research, entrepreneurship, knowledge transfer, and skill development. This multifaceted approach not only enriches the academic experience but also empowers students to become agents of change in the global arena.



SRI SATHYA SAI COLLEGE FOR WOMEN, BHOPAL

Kasturba Hospital Road, Habibganj, Bhopal - 462024





SRI SATHYA SAI COLLEGE FOR WOMEN, BHOPAL

Kasturba Hospital Road, Habibganj, Bhopal - 462024



TOPIC	PAGE NUMBER
INTELLECUTUAL PROPERTY RIGHTS AND TRASFER OF KNOWLEDGE	4-22
INDIAN KNOWLEDGE SYSTEM	23-31
ENTERPERNEURSHIP CELL	32-37

RESEARCH COMMITTEE AND COLLEGE COUNCIL MEETING



College Council Meeting




DATE : 25/8/2022

TITLE : Expert Lecture on Patent Designs and Trademarks

RESOURCE PERSON : Dr. Ajay S. Thakur, - Asst. Controller - Patent Office, Mumbai

Dr. N.K. Choubey, Principal Scientist & Head Patent Information, M.P. Council of Science & Technology.



DATE : 10-02-22

TITLE: Webinar on IPR

RESOURCE PERSON: Dr Deevanshu Shrivastav, Head, Jagran School of Public Policy & International Affairs, Jagran Lakecity University, Bhopal

LINK:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZscpgQBUHCO>

WEBINAR ON IPR
10TH FEBRUARY, 2022 @ 12 NOON
JOIN US ON YOUTUBE:
<https://youtu.be/ZscpgQBUHCO>

Registration Link-
<https://forms.gle/14G4TqZtZugBsoM96>

Speaker : 
Dr. Deevanshu Shrivastava
Head, Jagran School of Public Policy & International Affairs
Jagran Lakecity University, Bhopal

Organized by Department of Botany & Microbiology in association with IQAC

Dr. Meena Pimpalpure Chairman	Dr. Shikha Mandloi Dr. Nishi Yadav Assistant Professor, Microbiology	Dr. Asha Agarwal Principal	Dr. Neena Arora Head, Dept. of Chemistry IQAC Co-Coordinator
----------------------------------	--	-------------------------------	--

Dr. Renu Mishra
Dept. of Botany & Microbiology
IQAC Coordinator

IPR in Curriculum of B.Sc 3rd year

Unit I

Pharmaceutical Chemistry:

1. Introduction to pharmacy, career in pharmacy, codes of pharmaceutical ethics, importance of pharmaceutical chemistry, pharmacopeia and its history (IP, BP, USP)
2. Drug and cosmetic act with special reference to schedule M, GMP, GLP, GCP, USFDA, NDA, clinical trial.
3. Concept of quality and total quality management, quality assurance and quality control, IPQA, IPQC.
4. Documentation and maintenance of record, intellectual property rights, patents, trademark, copyright, patent act.

IPR in Curriculum of B.Sc 2nd year (Botany) and PG (Biotechnology)

Unit-IV	<p>Soil & Pollution: Physical and chemical properties, soil formation, Development of Soil Profile, Soil classification, Soil composition, soil factors; Environmental Pollution: Definition, Types, Causes & Control Global Warming, Acid Rain, Climate Change and Ozone Layer & Ozone Hole. Plant Indicators, Environmental Protection Act, Farmer's Right and Intellectual Property Right.</p> <p>मृदा एवं प्रदूषण : भौतिक एवं रासायनिक गुण मृदा निर्माण, मृदा परिच्छेदिका का विकास, मृदा का वर्गीकरण, मृदा संगठन मृदा कारक। पर्यावरणप्रदूषण: परिभाषा, प्रकार, कारण एवं नियंत्रण, वैश्विक तपन, अस्थीय वर्षा जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत एवं ओजोन छिद्र। पादप सूचक, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कृषक अधिकार एवं बौद्धिक संपदा का अधिकार।</p>
Unit-V	<p>Phytogeography : Phytogeographical regions of India, Vegetation types of Madhya Pradesh. Natural resources: definition and classification, Conservation and management of natural resources, Land resource management, Water and wet land resource management. Economic and Ethnobotany.</p> <p>पादप भौगोलिकी भारत के पादप भौगोलिक क्षेत्र। मध्य प्रदेश के वानस्पतिक प्रकार। प्राकृतिक स्रोत- परिभाषा एवं वर्गीकरण, संरक्षण एवं प्रबंधन। भू-स्रोत प्रबंधन। जल एवं आर्द्रभूमि स्रोत प्रबंधन। आर्थिक एवं लोकव्यवस्थितिकी।</p>

Scheme of Question Paper
प्रश्न पत्र की योजना

- Objective type questions two from each unit
वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक इकाई से दो 10 x 0.5 = 05
- Short answer type questions from each unit with internal choice.
लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक इकाई से आंतरिक विकल्प के साथ 02 x 05 = 10
- Long answer type questions from each unit with internal choice.
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक इकाई से आंतरिक विकल्प के साथ 05 x 05 = 25

SUGGESTED READINGS :-

- Benerjee, S. 1998. Bio Diversity conservation – Agrobotamica, Bikaner.
- Kumar, U.K. 2006. Bio diversity principles and conservation, A grobios, Jodhpur.
- Odum, E.P. 5th ed. 2004 Fundamentals of Ecology, Natraj Publisher, Dehradun.
- Puri, G.S. 1960. Indian Forest Ecology.
- Sharma. P.D. 7th ed. 1998. Ecology and Environment, Rastogi Publication, Shivaji Road, Meerut. 250002. India
- Shukla, R.S. & Chandel, P.S. 2006. A Text Book of Plant Ecology.
- Kochar, S.L.-Economic Botany.
- Pandey Neeraj and Dharni Khushdeep- Intellectual Property right.

Handwritten notes at the bottom of the page include names like 'Vans', 'Rne', 'Bara', 'Jr', 'Jal', 'Rambh', 'Sptg' and a date '7-12-21'.

BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

Class	-	M.Sc.
Subject	-	Biotechnology
Paper Name	-	BT-303: Plant Biotechnology
Semester	-	III

Max Marks: 85

UNIT-I: Plant tissue culture: Cleaning, sterilization, sterile handling of tissue culture of plant. Nutritional requirement for in vitro culture. Concept of cellular totipotency, single cell culture, micro propagation, somoclonal variation and its application for plant improvement, somatic embryogenesis, anther and ovule culture, haploid and double-haploid production.

UNIT-II: Protoplast culture: Isolation, fusion and culture, somatic hybridization, selection system for hybrids, cybrid production and their application in crop improvement, cryobiology of plant cell culture and establishment of gene banks, production of virus free plants using meristem culture.

UNIT-III: Plant cloning vectors: Ti and Ri plasmid and viral vectors (CaMV based vectors, Gemini virus, TMV based vectors). Mechanism of DNA transfer, role of virulence genes, use of 35S promoters, use of reporter genes, methods of nuclear transfer, particle bombardment, electroporation, microinjection, transformation of monocots, transgene stability and gene silencing for herbicide, insect and salt resistance, Plant DNA fingerprinting - Hybridization, Genetic markers, molecular markers, PCR based markers (RFLP, SSRs, RAPD, QTLs, SCARS, AFLP etc.)

UNIT-IV: Biological nitrogen fixation and biofertilization, molecular mechanism of nitrogen fixation, genetics of nif gene. Plant diseases- general account, biological control of pests and disease, biopesticides, seed production technique, plant cell culture for the production of useful secondary metabolism-pigments, perfumes, flavor, pharmacologically important compounds, biodegradable plastics. Automation in Plant Tissue Culture for its commercial application.

30

UNIT-V: Transgenic plants, commercial status and public acceptance, Bio-safety guidelines for research involving GMO's, benefits and risks. Socio economic impact and ecological consideration of GMO's, Gene flow, IPR and IPP. Patenting of biological.

DATE : 11-12/11/2022
TITLE : International Conference on Post Covid Trends of Biological Sciences, Therapeutic, Innovation and Entrepreneurship
RESOURCE PERSON : Dr Rajnarayan Tiwari, Director, ICMR-NIREH), Bhopal
LINK: <https://www.youtube.com/watch?v=i-uQGSXkeoc&t=95s>



एक महिला ने सफलता को मजबूत करने और ऊंचाई पर ले जाने के बादलबान धारक के साथ मुनब लड़ रहे हैं। भेल उपभोक्ता

श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार 'भारत ने आपदा में आत्मनिर्भरता को अपनाकर महामारी से देश को बचाया'

पत्रिका मूल नेटवर्क
इकीबर्नज (भेल), भारत ने आपदा में अवसर आत्मनिर्भरता को अपनाकर कौविद महामारी से देश को बचाया। भारत ने अपने स्वयं के क्षेत्र में महामारी के बाद चर्चोज कर समाजिक, आर्थिक परिस्थिति में विकास किया। मजबूत की जान बचाने में विभिन्न नीतियों का क्रियान्वयन कर मानवता के विकास और सहाय के लिए अग्रणी कर दिया। यह बात डॉक्टर राजनारायण तिवारी निदेशक मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ ने सुझाव को श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय भोपाल के जैव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में कही। डॉ. राजन तुषे साइटेट ग्लोबल ट्रेडिंजी और लायन साइड हेल्थ इंटर सिंपलर ने कहा कि हमें महामारी से बचाव के लिए पूर्व में तैयारी करना चाहिए। इस विचार में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेकेंडरी ऑनर्जीज्म तथा संसाधनों के क्षेत्र में मजबूतपुर्ण अनुभवान किया गया। सेमिनार का मुख्य विषय अनुभवान चिकित्सकीय नवोन्मेष और उद्यमिता की ओर जैविक विज्ञान के कोविड के बाद के रुझान रहा। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की सुरुआत राष्ट्रीय गान, सारस्वती वंदन और वंदना प्रज्वलित कर की गई। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन प्रथम सत्र में 10 प्रोफेसरों ने अपने शोध-पत्र प्रस्तुत किए। द्वितीय सत्रोंकी सत्र में डॉ. जगदीशदावा गैजिक प्राध्यक सरविष विद्यापीठालय ने विभिन्न प्राथमिक स्तरों से बायोवैजिक

के भारतलबान धारक के साथ मुनब लड़ रहे हैं। भेल उपभोक्ता

नैनोमटेरियल के इजीनियरिंग और अनुप्रयोग ने जैव चिकित्सा क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में मदद की

डॉ. प्रमोद शर्मा चिकित्स (यूसए) ने कहा नैनोमटेरियल के इजीनियरिंग और अनुप्रयोग ने हाल ही में विभिन्न जैव चिकित्सा क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में मदद की है। नैनो इजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों में प्रगती अतिरिक्त कि-अवामी संरचनाओं और सरल विद्युत्ताओं के साथ (जेडएनओ) नैनो कम्पोजिट पीढ़ी को सक्षम करती है, जो इन पीढ़ी अनुप्रयोगों के लिए श्वेतर रूप के डिजाइन की गई है। डॉ. शर्मा ने शोध के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कोशिकाओं की साइटोडिफेंस गति की गतिशीलता

के साथ सक्षम गुना, मुला कुमार संस्था में नहीं आने देते की बात कही।

के साथ सक्षम गुना, मुला कुमार संस्था में नहीं आने देते की बात कही।

स्ट्रे सेल और चिकित्सा की क्षमता को बताया

डॉ. सुमित सक्सेय वोट्टीन (यूसए) ने कोविड के बाद की दुनिया में बायोटेक का भविष्य बताया हुए कहा कि इस चहुं ही रोमांचक समय में जी रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रवृत्ति में कुछ आश्चर्यजनक प्रगति की अवलोकन किया जो हमारे चारों ओर ही रही है। इस दौरान स्ट्रे सेल और चिकित्सा में विशाल क्षमता के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बात पर ध्यान देने कि कैसे जो प्रौद्योगिकी भविष्य में चिकित्सा विज्ञान को प्रभावित कर रही है।

नौ साल का मूकबधिर हर्ष अंब संस्था हरपीड़ा हर रिपेयिंग का चेक

डॉ. अरविंद राय बलौते हैं इस भवन में अवगत और गौरी मेडिकल कलेज से जुड़ी वैज्ञानिक बचपुंओं के रखने की योजना है। इसमें पुराने दरवाजे, छोटों के साथ पुराने दौर में उपयोग होने वाले चिकित्सा उपकरणों को रखा जाएगा। भवन में लगी सख्त कालीन घड़ी को फिर से चलाने की तैयारी चल रही है।

मैनेजर सहित कर्मचारी मिले नदारद, अध्यक्ष और मैनेजर के घर की होगी सविंग सहकारिता विभाग ने रिकॉर्ड खंगालने भेल उपभोक्ता भंडार में दी दबिशा

भेल उपभोक्ता भंडार में आर्थिक अनिश्चितताओं को रिकारण पर नुक्रानर को सहकारिता विभाग ने कार्रवाई की। अध्यक्ष राजन बुद्धिगुजा पर आर्थिक अनिश्चितता



Anna nagar, ward no.59, Habib Ganj, Bhopal, Madhya Pradesh 462023, India


Latitude 23.22749105° Longitude 77.4449736°

Local 05:06:49 PM Altitude 455.48 meters

GMT 11:36:49 AM Saturday, 11.12.2022

GPS Map Camera Lite

DATE : 11-12/11/2022
TITLE : International Conference on Post Covid Trends of Biological Sciences, Therapeutic, Innovation and Entrepreneurship
RESOURCE PERSON : Dr Rajnarayan Tiwari, Director, ICMR-NIREH), Bhopal
LINK : <https://www.youtube.com/watch?v=i-uQGSXkeoc&t=95s>



GPS Map Camera Lite
Anna nagar, ward no.59, Habib Ganj, Bhopal, Madhya Pradesh 462023, India
Latitude 23.22743437° Longitude 77.44499794°
Local 04:50:40 PM Altitude 13.58 meters
GMT 11:20:40 AM Saturday, 12.11.2022

DATE :24/09/22

TITLE : National Seminar on “Revised Assessment and Accreditation Framework of “NAAC”

RESOURCE PERSON : Dr Prashant Dwivedi, Deputy Secretary,UGC,CRO, Bhopal

LINK: <https://www.youtube.com/watch?v=DM6hK4jkAfs&t=181s>

Sri Sathya Sai College for Women,
Bhopal

NAAC Accredited “A” Grade



ONE DAY NATIONAL SEMINAR ON

“REVISED ASSESSMENT AND ACCREDITATION
FRAMEWORK OF NAAC”

Organized by
Internal Quality Assurance
Cell(IQAC), SSSCW, Bhopal

Sponsored by
National Assessment and
Accreditation Council (NAAC)

DATE- 24 Th Sept 2022

MODE- Hybrid (Online/ Offline)

For any inquiry, Contact us

Dr. Renu Mishra- 9425014870

Dr. Neena Arora- 8989003916



Chief Guest Dr.Prashant Dwivedi

The Chief Guest Dr.Prashant Dwivedi, Deputy Secretary, UGC, CRO, Bhopal, congratulated and appreciated the effort of college in organizing the seminar in hybrid mode. He presented valuable insights on the role of teachers & institutions in quality enhancement in higher education.

DATE :24/09/22

TITLE : National Seminar on “Revised Assesment and Accreditation Framework of “NAAC”
RESOURCE PERSON : Dr.Rajesh pandey,Principal, Ramdeobaba college of engineering & management,
Nagpur

Dr Usha Nair,OSD, World Bank Project

LINK: <https://www.youtube.com/watch?v=DM6hK4jkAfs&t=181s>



Resource Person - Dr. Usha Nair

The formal welcome address was delivered by the principal Dr.Asha Agarwal .

TECHNICAL SESSION 1: Importance of NAAC Assessment & Accreditation with reference to the revised Framework.



Keynote Speaker :- Dr. Rajesh Pandey

Date : February 2022

TITLE: Skill Development Workshops

Sri Sathya Sai College for Women, Bhopal Orientation Programme

on
Code of Conduct, Welfare Scheme for students & Best Practices

15th February, 2022 @ 12 Noon

Speakers : Join us on Youtube: <https://youtu.be/eD8ijLEDP8Q>

Registration Link-
<https://forms.gle/QmTRJcId7UyXXsH8>



Dr. ASHA AGARWAL
Principal, Sri Sathya Sai College for Women, Bhopal



Dr. JYOTSNA GALGALE
Head, Department of Physics, SSSCW



Dr. SHUBHA KAPDEO
Head, Department of Home science, SSSCW

ORGANIZED BY IQAC

DR. MEENA PIMPALAPURE
CHAIRMAN

DR. ASHA AGARWAL
PRINCIPAL

DR. RENU MISHRA
HEAD, DEPT. OF BOTANY & MICROBIOLOGY, IQAC COORDINATOR

DR. NEENA ARORA
HEAD, DEPT. OF CHEMISTRY, IQAC CO-COORDINATOR



SRI SATHYA SAI COLLEGE FOR WOMEN, BHOPAL

NATIONAL WEBINAR ON FUNDAMENTAL RIGHTS AND DUTIES

11TH FEBRUARY 2022, 12 NOON

JOIN US ON YOUTUBE : <https://youtu.be/4VpleKRtyoE>

Registration Link : <https://forms.gle/ujdJ4abeeXe8DtNV9>



Eminent Speaker
Dr. Anupama Yadav
Professor,
Political Science,
Govt. Babu Lal Gour P. G. College
(BHEL college), Bhopal

Organized by IQAC and Department of Political Science

Dr. Meena Pimpalpure Dr. Asha Agarwal Dr. Renu Mishra Dr. Neena Arora Dr. Srijith Seth & Dr. Harsha Chaturvedi



Sri Sathya Sai College for Women, Bhopal

NATIONAL WEBINAR on Indian Culture and Spirituality

Organized by IQAC
19th February, 2022 at 12:00 Noon

Eminent Speakers :



Dr. MEENA PIMPALAPURE
Chairman, College governing body



Dr. USHA NAIR
Professor of Chemistry,
OSD MPHEQIP M.P.



Mr. PRATEEK KHARE
Secretary state
Commission for
Protection of Child
Rights, Raipur

Youtube Link-
<https://youtu.be/kgExaS8nQv0>

Registration Link-
<https://forms.gle/gv3HPwVGVrIBMJVw6>

Dr. Asha Agarwal Dr. Renu Mishra Dr. Neena Arora
Principal, Sri Sathya Sai College For Women & Head, Dept. of Botany & Head, Dept. of Chemistry, IQAC



Sri Sathya Sai College for Women, Bhopal

Webinar on
Environmental Sustainability
17th February 2022, 12:00 PM

Eminent Speakers



Mr. LOKENDRA THAKKAR
State Coordinator
Climate Change
Knowledge Center and
State Wetland Authority,
Govt. MP



K. KARTHIKEYAN
Associate Professor in
Electrical Engineering,
KCG College for
Technology, Karapakkam,
Chennai, Tamil Nadu

Youtube Link-
<https://youtu.be/l8Y6saE1U1c>
Registration Link-
<https://forms.gle/LedwfaiywCztLCE1A>

Organized by IQAC and Department of Chemistry

Dr. Meena Pimpalpure Dr. Asha Agarwal Dr. Renu Mishra Dr. Neena Arora
Chairman, Sri Sathya Sai College For Women, Bhopal Principal, Sri Sathya Sai College For Women, Bhopal Head, Dept. of Botany & Microbiology, IQAC Coordinator Head, Dept. of Chemistry, IQAC Co-Coordinator

Solid Waste Management, Bio- Medical Waste and E-Waste Management

Renowned Speaker :



Dr. SUGANDHA SINGH
Dean, Sciences & IT,
Madhyanchal Professional
University, Bhopal



Mr. VIJAYARAGHAVAN
KRISHNAMURTHY
Principal Consultant,
Infosys Limited

Organized by- Department of Zoology, Biotechnology, Computer and IQAC Cell

Dr. Meena Pimpalpure Dr. Asha Agarwal Dr. Rupa Guha Nandi Dr. Sunita Yadav Dr. Renu Shrivastava Mrs. Abhilasha Kumar Mrs. Vaishali Kadwey Ms. Girjesh Chauhan Dr. Renu Mishra Dr. Neena Arora

DATE : 9-18 /02/2021

TITLE : Skill Development Workshop



Dr. Neena Arora

Sanitizer/ Floor Cleaner/ Phenyl Preparation



Dr. Neena Arora



Sanitizer/ Floor Cleaner/ Phenyl Preparation



DATE :17-18/01/2020

TITLE : National Seminar on Role of Fundamental duties for sustainable development and nation building

RESOURCE PERSON: Dr S. N. Suryavanshi, Principal, SethRCS College, Chattisgarh

Dr Vishwas Chauhan, Prof, State Law College, Bhopal, Shri Sanjeev Sachdeva, Director, EPCO, Bhopal



DATE :10/02/2020 & 11/02/2020

TITLE : National Workshop on Research Methodology



DATE :23/03/2019 & 24/03/2019

TITLE : National Seminar on Quality Enhancement in Higher Education Institution

**RESOURCE PERSON : Prof R.J.Rao, VC, Barkatullah University
Shri G.S. Chauhan, Joint Secretary, UGC, New Delhi**



DATE :15/03/2019 & 16/03/2019

TITLE : National Workshop on Research Methodology



In-House Biannual Journal HIGHBROW



<https://srisatyasaiedubpl.org/Home/callforpaper.php>

DATE :18-19 July 2019

Dr. Renu Mishra, HoD – Botany and Microbiology, attended International Conference on Pharmacology & toxicology in Zurich, Switzerland as member organizing committee. She also presented a poster and was awarded with **Best Poster award** .



Presenting a paper in an International Conferenc ' Biotechnology for Better tomorrow- 2022 ' at Bali Indonesia




DATE: 13, 14 September 2018

Dr Neena Arora, Dr Kiran Shandilya, Dr Varsha Saxena presented research work at 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry, Bangkok, Thailand



INDIAN KNOWLEDGE SYSTEM (IKS)



DATE : 22/12/2022

TITLE : Junoon ki Gatha : Ramanujan by Department of Mathematics

LINK : <https://www.youtube.com/watch?v=boRj45ydrU>



Anna nagar, ward no.59, Habib Ganj, Bhopal, Madhya Pradesh 462023, India

Latitude
23.227431°

Longitude
77.4450061°

Local 11:37:23 AM
GMT 06:07:23 AM

Altitude 0 meters
Thursday, 22-12-2022



Anna nagar, ward no.59, Habib Ganj, Bhopal, Madhya Pradesh 462023, India

Latitude
23.2274288°

Longitude
77.4449898°

Local 12:09:21 PM
GMT 06:39:21 AM

Altitude 435.4 meters
Thursday, 22-12-2022



Anna nagar, ward no.59, Habib Ganj, Bhopal, Madhya Pradesh 462023, India

Latitude
23.2274226°

Longitude
77.4450023°

Local 11:52:05 AM
GMT 06:22:05 AM

Altitude 0 meters
Thursday, 22-12-2022

DATE : 01/12/2022

TITLE : Drama series on history of India by Department of History

LINK : [https://www.youtube.com/watch?v= btXEbttIZ8](https://www.youtube.com/watch?v=btXEbttIZ8)



DATE : 05/10/2018, 05/11/2021, 07/10/2023
TITLE : Sanskriti Gyan Pariksha by Gayatri Teerth, Haridwar



05/10/18



05/11/21



07/10/23

DATE : 29/09/2022

TITLE : Multiply magically with Vedic Mathematics

LINK : <https://www.youtube.com/watch?v=IFWtUeEaLpI>



Make it easy

Multiplication of any number by the number like 99999....

$$6785439 \times 9999999$$

Subtract one Get complement

$$6785438 \ 3214561$$

Rashi K



Base method (below base)

This method help to find products near base ,like 10, 100, 1000.....

$$\begin{array}{r|l} 0889 & -9111 \\ \times 9998 & -0002 \\ \hline \end{array}$$

Rashi K

TITLE : Kavi Diwas by Department of Hindi



TITLE : Educational Visits to PUTTAPARTHY, HAMPI, SANCHI, UDAIGIRI



पुट्टपती यात्रा

एक वर्ष की भाँति भगवान श्री सत्य साई बाबा की प्राध्यापिकाओं एवं छात्राओं का दल पुट्टपती यात्रा हेतु रवाना हुआ। यात्रा से पहले तीन-चार मीटिंग ली गई ताकि पूरी यात्रा ठीक से संचालित की जा सके। अंत में वह दिन आ ही गया जिसका सभी को वेसट्री से तजार था। 22 जनवरी 2019 को सभी ने भोपाल रेलवे स्टेशन




को चित्रावती नदी के किनारे कल्पवृक्ष के निकट जहाँ बाबा ने सर्वप्रथम भजन गाया वहाँ भजन गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सम्पूर्ण दल ने संगीत विभागाध्यक्ष डॉ. दीप्ति भटनागर के मार्गदर्शन में भजन गाये। डॉ. हर्षा चतुर्वेदी, डॉ. मीनू पाण्डेय एवं सरोज ने भी भजन गाये। सभी छात्राओं, सुजाता मैडम, गंगा दीदी ने कोरस के रूप में साथ दिया। सुजाता मैडम ने भगवान बाबा के बारे में बहुत सारी जानकारीयाँ छात्राओं और प्राध्यापिकाओं को दीं। वहाँ सभी ने डॉ. दीप्ति भटनागर और उनकी टीम के साथ गाये वहाँ सभी ने भोपाल रेलवे स्टेशन

रहा। स्वामी बाबा से जुड़े अनेक रोचक एवं महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने का मौका मिला। फिर वहाँ के निदेशक से मिले उन्होंने सिम्बल ऑफ चैतन्य ज्योति ब्द पिलर के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया।

अगले दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुबह 4.30 बजे उठकर नगर संत कीर्तन हेतु गये, उसके बाद सफर हेतु बच्चों के लिये आवश्यक सामग्री शॉपिंग मॉल से खरीद कर जल्दी-जल्दी अपना सामान पैक कर चैक आऊट



GPS Map Camera



Vidisha, Madhya Pradesh, India
GQPC+GW9, Madhya Pradesh 464001, India
Lat 23.53655°
Long 77.772432°
10/12/22 12:37 PM GMT +05:30



National Service Scheme



Azaadi ka Amrit Mahotsav

Fancy Dress Competition

Theme – "Azaadi ke Senani" (Dress up like a real Superhero)

1. Make a video of 15 to 30 seconds duration.
2. The video should ideally have a famous quote of the freedom fighter chosen
3. Competition Launch Date: 20 September 2021
4. Last Date of Submission : 24 September 2021



Dr. Pooja Kaur Chaggar
NSS Officer



Dr. Deepthi Bhatnagar
NSS Officer

Activities under IKS



गोल टाइम्स राजधानी समाचार

भोपाल, रविवार, 15 अगस्त 2021 04
GoalTimes@gmail.com

सेमिनार का आयोजन श्री सत्य साई महाविद्यालय में म्यूजिक थरेपी की शक्ति का प्रभाव पर सेमिनार

गोल टाइम्स (समाचार पत्र)
भोपाल: ओ सत्य साई महाविद्यालय भोपाल के संयुक्त विभाजन द्वारा 'म्यूजिक थरेपी की शक्ति का प्रभाव' सेमिनार आयोजित किया गया। जिसमें भोपाल के जाने माने म्यूजिक कंसल्टेंट, थैपेस्ट, और हीरोल कला दिग्दर्शक मनीष जो ने म्यूजिक थैपे की जानकारी पर मस्तिष्क व शारीरिक प्रभाव बताया।
किस प्रश्न कोन से रूप व उस पर आधुनिक पुराने से बीमारियों का निदान क्या जा सकता है क्वारेडेशन में देन भर से करीब 250 लोगों ने हिस्सा लिया। महाविद्यालय ने संगीत की महत्ता को बहुत व बताया कि हमें संगीत को अपने जीवन में धन्यवाद जोरित करना चाहिए। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ अंशु अग्रवाल ने सभी अतिथियों, कर्मचारियों तथा दिग्दर्शक मनीष जो का स्वागत करते हुए संगीत के प्रभाव को चर्चा की। संगीत विभाग अध्यक्ष डॉ वीरि किशोर शर्मा ने पूरा व उस पर भद्रप्राण के कुशल संवेदन में सब कार्यक्रम सफल हुआ। अतिथियों ने धन्यवाद ज्ञापित कर महाविद्यालय की पूर्व छात्र अनुभूति सेमिनार में सभी का धन्यवाद किया।



ENTERPRENEURSHIP CELL



Date : 17/12/21

Title: Inauguration of Entrepreneurship Cell



Date : 05/03/22
Title : Parampara Utsav



Date: 24-26 March 2022

Title: Participation in SWEEP 2022 organised by MP government



6CV3+JV7, Lower Lake, Jahangirabad, Bhopal, Madhya Pradesh
462008, India

Latitude

23.2433352°

Longitude

77.4069566°

Local 01:25:22 PM

GMT 07:55:22 AM

Altitude 453.8 meters

Saturday, 26-03-2022



Title: Honourable Chief Minister's Yuva Samvaad participation by College Students



Date : 08/03/2022

Title: Yuva Mitra Kendra by NSS



GPS Map
Camera Lite

6CHV+GPG, Habib Ganj, Bhopal, Madhya Pradesh
462023, India

Latitude 23.22837833333333
Longitude 77.44461°
2°

Local 12:35:05 PM
GMT 07:05:05 AM

Longitude 77.44461°
Altitude 441.5 meters
Tuesday, 08-03-2022



विकित्सक भी
देगो सलाह



GPS Map
Camera Lite

137, BHEL, Bhopal, Madhya Pradesh 462021, India

Latitude 23.22753731°

Local 02:32:41 PM
GMT 09:02:41 AM

Longitude 77.44503114°

Altitude 419.9 meters
Friday, 01-04-2022